

JMA/CSCors/2025-26/dt: **25th September, 2025**

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Code: JMA

Sub: Newspaper publication regarding the special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publication, informing the shareholders about the Special Window open till January 06, 2026 for re-lodgement of transfer requests of physical shares, in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

The above notice was published in the following newspapers:

<u>Name</u>	<u>Date of Publication</u>	<u>Medium</u>
1. Financial Express	25th September, 2025	English
2. Jansatta	25th September, 2025	Hindi

You are kindly requested to take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited**

Ramkesh Pal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

TO PREVENT TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDENDS TO IEPF 100 DAYS CAMPAIGN – "SAKSHAM NIVESHAK"

Shareholders are also informed that the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), vide its letter dated July 16, 2025 has requested companies to begin a 100-day campaign titled "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 6, 2025, targeting shareholders with unclaimed dividends. In response, the Company is conducting this special campaign to assist shareholders in claiming their unclaimed dividends from the Company's Unpaid Dividend Account(s) after updation of their KYC details.

During this campaign, all the shareholders who have not claimed their dividends or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Company's RTA i.e Alankit Assignments Limited at email ID info@alankit.com or at their office at 205- 208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110 055.

The shareholders may further note that this campaign has been started proactively and specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact Information etc. and claim their unpaid/unclaimed Dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to the IEPFA.

For SHIRAM PISTONS & RINGS LIMITED

Sd/-

(Pankaj Gupta)

Place : New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

Dated : September 24, 2025

M. No. : F4047



JULLUNDUR MOTOR AGENCY (DELHI) LIMITED

CIN: L35999HR1998PLC033943

Regd. Office: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram-122001, Haryana
Ph. No. 0124-4233868-70; Website: www.imaindia.com; Email: info@imaindia.com

NOTICE

RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS QF PHYSICAL SHARES - SPECIAL WINDOW OPEN TILL JANUARY 06, 2026

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, All Shareholders / Investors are hereby informed that a Special window is opened for a period of Six month from July 07, 2025 to January 06, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of Physical shares. This facility is available for transfer requests Lodged Prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned or not processed due to deficiencies in Documents / Process / or otherwise.

The shares re-lodged for transfer will be processed only in Dematerialized Form during this window. Eligible investors may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. MAS Services Limited at T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020, for necessary action on or before January 06, 2026.

For Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited

Sd/-

Ramkesh Pal

Place: Gurugram

Date: 24.09.2025

Company Secretary

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed/undertaken pre-issue placements from the filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements.

Transactions of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group (s) from the filing date: Not Applicable

Details of the pre-issue shareholding of promoter(s), promoter group and additional top 10 Shareholders of the Company:

Details of the Pre-Issue Shareholding of Promoter(s), Promoters Group and Promoters Group Shareholding					
Sr. No.	Name of Shareholder	Pre-Issue Shareholding as at the date of the Advertisement		Post-Issue Shareholding as at Allotment*	
				At the Issue Price (₹ 21/-)	
		No. of Equity Shares	Shareholding (in %)	No. of Equity Shares	Shareholding (in %)
Promoters					
1	Tejaswini Yarlagadda	2,87,99,990	72.00%	2,87,99,990	52.56%
2	Pavan Kumar Bang	79,99,960	20.00%	79,99,960	14.60%
3	Venkata Ramana Reddy Gaggenapalli	32,00,000	8.00%	32,00,000	5.84%
Total Promoters Shareholding		3,99,99,950	100.00%	3,99,99,950	73.00%
Promoters Group					
4	Nupur Pavan Bang	10	0.00%	10	0.00%
5	Sheetal Kumar Bang	10	0.00%	10	0.00%
6	Meenu Bang	10	0.00%	10	0.00%
7	Rajat Arun Totla	10	0.00%	10	0.00%
8	Ravula Shashi	10	0.00%	10	0.00%
Total Promoters Group Shareholding (B)		50	0.00%	50	0.00%
Total Promoters & Promoters Group (A+B)		4,00,00,000	100.00%	4,00,00,000	73.00%

*Based on the issue price of ₹ 21 and subject to finalization of the basis of allotment. Assuming the entire proposed issue is fully subscribed.

Notes:

- The Promoter Group Shareholders are Nupur Pavan Bang, Sheetal Kumar Bang, Meenu Bang, Rajat Arun Totla and Ravula Shashi.
- Includes all options that have been exercised until date of prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue advertisement until the date of prospectus – Not Applicable

100 p.m. (IST) on Wednesday, October 15, 2025.

physical mode and who have not updated their e-mail address with to update their e-mail addresses by submitting Form ISR-1 (available on www.transchem.net) duly filed and signed along with requisite Company's RTA.

Dematerialised mode are requested to register/update their e-mail postitory Participants.

The EGM and the manner of participation in the remote electronic in the e-Voting system during the EGM are provided in the Notice

or during the EGM for Members holding shares in dematerialized Members who have not registered their email addresses has been ening the EGM. Instructions for attending the EGM through VC / the Notice of the EGM.

or vote through remote e-Voting can participate in the EGM but shall vote again.

Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders al for Shareholders available at the download section of all at 022-4886 7000 or send a request to Mr. Sagar S. Gudhate sgudhate@nsdl.com

fully read the Notice of the EGM and in particular, instructions f casting vote through remote e-Voting or Voting at the EGM.

By Order of the Board of Directors

For Transchem Limited

Sd/-

Neeraja Karandikar

Company Secretary

BER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:

umber of Equity Shares subscribed for by them at the otted to Harish Chandra Prasad Yarlagadda and 5,000

on 2018, a copy of the Prospectus has been filed with DR Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer

given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be has been cleared, solicited or approved by BSE, nor ors are advised to refer to page 263 of the Prospectus

re during the current financial year and three financial the listing date.

2024-25	FY 2023-24	FY 2022-23	Total
6	5	12	26
-	-	-	-
6	5	12	26
1	-	5	8
5	5	7	18

NOTICE TO APPEAR/ATTEND PROCEEDINGS OF DLM&SFC-LDH

Through this Publication This is for Constructive Notice for Respondent M/s Jay Majisa # 99, New Pall Road, Vijay Nagar, Jodhpur, Rajasthan-342001 to appear in person or through Authorized representative before The District level Micro & Small Facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on 29/09/2025, 10:00 AM regarding claim reference petition submitted by Claimant M/s Rajesh Enterprises # B-XXIX-92/1C/4, B.M.S Nagar, Daba Road, G.T Road, Near Sherpur Chowk, St. no. 2/1/2, Ludhiana-141003 Punjab Act 2006 bearing Reference No. MSEFC/DIC/03/24/2976. If respondent still fails or omits to appear as above then Arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and Award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager, District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana
Ph. No. 0161-2540695, E-mail: dicludhiana5@gmail.com, Ludhiana.msefc@gmail.com



जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड

CIN: L35999HR1998PLC033943

पंजी. कार्यालय: 458-1/16, सोहन रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम-122061, हरियाणा
फोन नं.: 0124-4233668-70, वेबसाइट: www.jmaindia.com ई-मेल: info@jmaindia.com

सूचना

भौतिक शेरों को हस्तांतरण अनुरोधों का पुनः दाखिल - 6 जनवरी, 2026 तक विशेष विंडो खुली है।

सेबी के दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PIR/2025/97 के अनुसार में, सभी शेरधारकों/निवेशकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने की सुविधा के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए उपलब्ध है जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था या संसाधित नहीं किया गया था।

इस विंडो के दौरान हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किए गए शेरों का प्रसंस्करण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। पात्र निवेशक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेर ट्रान्सफर एजेंट यानी एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34 द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली 110020 को 06 जनवरी, 2026 को या उससे पहले आवश्यक कार्यवाई के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड के लिए

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 24.09.2025

हस्ता/-
सामकेस पाल
कंपनी सचिव

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED IN INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Our Company was incorporated as "K.R.M. Ramadevi Enterprises Private Limited" at Tan to a certificate of incorporation dated June 30, 2010, issued by the Registrar of Companies (Identity Number (CIN) U15313TN2010PTC076382. Pursuant to a special resolution passed name of the Company was changed to "M. Ramadevi Enterprises Private Limited" and a by the Registrar of Companies, Chennai. Thereafter, pursuant to a special resolution passed 2025, the name of our Company was changed to "M R Maniveni Foods Private Limited" and Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, bearing CIN U15313TN the Extra-Ordinary General Meeting held on February 11, 2025, our Company was converted name of our Company was changed to "M R Maniveni Foods Limited" and a fresh certificate of Registrar of Companies, Central Processing Centre. The present CIN of our Company is U153 of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 198 of the draft red

Registered Office: S.No.220/3A-3B, Madhavaram-Redhills High Road (Near va
Tel. No.: +91-9840777269; Contact Person: Krishnamachar
E-mail id: cs@mrgoldhall.com; Webs

OUR PROMOTERS: K R MANIKANDAN

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 65,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE UP TO ₹ 10/- LAKHS ("ISSUE"), OF WHICH [] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- SHARE PREMIUM OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 10/- LAKHS WILL BE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RES OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CO EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN EDITION OF FINANCIAL EXPRESS (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND TAMIL EDITION OF MAKAL KURAL, A REGISTERED OFFICE IN

ईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूलड कॉमर्शियल बैंक)

1, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

अवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व सपटित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सूचना य से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा एयू स्मॉल फाइनंस बैंक USFB सन्धिभित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को "जैसे है जहां है" एवं जो भी है जैसा भी है के का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी को जावेगी।

सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
नं. 39 सी के हिस्से प्रत संपत्ति, ख नं. का हिस्सा, संमाम ग्राम-मकनपुर, लोनी, तहसील व गाजियाबाद, प्रदेश क्षेत्रफल 70 वर्ग गज	₹ 3328000/- रुपये तैतीस लाख अट्ठाइस हजार मात्र	₹ 332800/- रुपये तीन लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र	12 नवम्बर 2025 समय अपराह्न 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	10 नवम्बर 2025 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड, शाखा पता - नं. सी3/67ए, यमुना विहार, नई दिल्ली 110053	अमित लोहिया, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 7 नवम्बर 2025

जैसा है, जहां है, "जैसा है वैसा, "जो कुछ भी है और" नो रिकॉर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई श्रात प्रभार नहीं है। इन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईएमडी के साथ, जो एक्साउंट MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, बालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE नि. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड : AUJBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक आगे बोलोदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auctions@aubank.in पर रद्द किए गए चेक नि. भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-नीलामी की बिक्री प्राप्ति. auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए

नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड

PROSPECTUS ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED IN INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



POLYMERS LIMITED

Registration Number: U28113WB1998PLC087875

and style of "Injecto Polymers Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on March 27, 2024 and consequently the name of our Injecto Polymers Limited" and a fresh certificate of incorporation dated July 8, 2024 pursuant to conversion from the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U28113WB1998PLC087875. For further certain Other Corporate Matters" beginning on page No. 159 of the Draft Red Herring Prospectus. No. 3, Poddar Court, 18, Rabindra Sarani, Lalbazar, Kolkata 700001 West Bengal, India and Compliance Officer; Telephone No.: +91 (033) 22378167; Website: www.injectopolymers.in E-Mail: cs@injectopolymers.in

ASHOK KUMAR RATERIA, SUMAN FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED, K TIE-UP PRIVATE LIMITED, NIVEDEEKA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED, AGYASHRI TRADING PRIVATE LIMITED

DETAILS OF THE ISSUE

FACEVAU 15313TN2010PTC076382. Pursuant to a special resolution passed name of the Company was changed to "M. Ramadevi Enterprises Private Limited" and a by the Registrar of Companies, Chennai. Thereafter, pursuant to a special resolution passed 2025, the name of our Company was changed to "M R Maniveni Foods Private Limited" and Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, bearing CIN U15313TN the Extra-Ordinary General Meeting held on February 11, 2025, our Company was converted name of our Company was changed to "M R Maniveni Foods Limited" and a fresh certificate of Registrar of Companies, Central Processing Centre. The present CIN of our Company is U153 of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 198 of the draft red